

B.A.G. Films and Media Limited

"CIN: L74899DL1993PLC051841" FC-23, Sector 16A, Film City, Noida 201 301 Tel.: 0120 4602424 | Fax: 0120 3911401

Mail : info@bagnetwork.in www.bagnetwork24.in

BAG/stx/letters/2020-21/AM/1040 September 16, 2020

To,
The Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G
Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

The Listing Department BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

NSE-SYMBOL: BAGFILMS

BSE-Scrip Code: 532507

Sub: - Submission of Newspaper Publication of Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter Ended June 30, 2020

To,

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copy of newspapers advertisement published in the Business Standard-English and Business Standard-Hindi edition dated September 16, 2020 regarding Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020.

This is for your information and record please.

Thanking You

Yours sincerely

For B.A.G. Films and Media Limited

(Rajeev Parashar) Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

















Place: Noida

Date : September 14, 2020

B.A.G. Films and Media Limited

CIN: L74899DL1993PLC051841 Regd Office: 352, Aggarwal Plaza, Plot No. 8, Kondli, New Delhi-110096 Corp Office: FC-23, Sector-16A, Film City, Noida (UP)-201301 Website: www.bagnetwork24.in, e-mail: info@bagnetwork.ir



Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2020 (₹ in lacs

		STAND	ALONE			CONSOLIDATED		
PARTICULARS	(Quarter Ended			Quarter Ended			Year Ended
PARTICULARS	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from operation (net)	746.89	883.95	617.27	3,331.72	1,500.25	2,915.18	4,038.46	12,054.71
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	(126.30)	329.03	110.28	61.20	(992.01)	(138.80)	426.99	(1,065.46)
Exceptional and/or Extraordinary items)								
Net Profit / (Loss) for the period before tax	(126.30)	329.03	110.28	61.20	(992.01)	(138.80)	426.99	(1,065.46)
(after Exceptional and/or Extraordinary items)								
Net Profit / (Loss) for the period after tax	(136.24)	327.19	107.33	49.67	(1,001.85)	(138.44)	432.57	(1,030.65)
(after Exceptional and/or Extraordinary items)								
Total Comprehensive Income for the period	(136.24)	327.19	107.33	41.89	(1,038.56)	(175.15)	432.57	1,067.36
[Comprising Profit / (Loss) for the period								
(after tax) and Other Comprehensive Income								
(after tax)]								
Equity Share Capital	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66
Earnings Per Share (of ₹ 2/- each)								
(for continuing and discontinued operations) -								
Basic:	(0.07)	0.17	0.05	0.02	(0.52)	(0.09)	0.22	(0.54)
Diluted:	(0.07)	0.17	0.05	0.02	(0.52)	(0.09)	0.19	(0.54)

- 1. The above Unaudited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and thereafter were approved by the Board of Directors in their meeting held or September 14, 2020.
- 2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on June 30, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standals and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 are available to investors on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the Company's website www.bagnetwork24.ir
- Previous quarter/year's figures have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary



For B.A.G Films and Media Limited Anuradha Prasad Shukla Chairperson and Managing Directo

KRYPTON INDUSTRIES LTD.

CIN: L25199WB1990PLC048791

Redg. Office: Plot No.31 & 32, Falta Special Economic Zone, Sector-1, 24 Parganas (S) Pin-743-504 Head Office: 410, Vardaan Building, 25A, Camac Street, Kolkata-700 016, Email id: krypton@kryptongroup.com

EXTRACTS OF THE UNAUDITED FINANCIAL DESUITS FOR THE QUARTER ENDED 20 06 2020

	EXTRACTS OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2020									
					(F	ks. in Lakhs)				
		S	TANDALONE		CONSOLIDATED					
	Particulars	Quarter Ended 30.06.2020	Quarter Ended 30.06.2019	Year Ended 31.03.2020	Quarter Ended 30.06.2020	Year Ended 31.03.2020				
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)				
1	Total Income from Operations (net)	416.71	836.20	2,914.46	548.57	2,913.67				
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax,									
	Exceptional and/or Extraordinary items #)	(40.85)	15.82	28.28	(24.99)	7.06				
3	Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after									
	Exceptional and/or Extraordinary items #)	(40.85)	15.82	28.28	(24.99)	7.06				
4	Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after									
	Exceptional and/or Extraordinary items #)	(36.85)	19.82	68.68	(20.99)	47.46				
5	Total Comprehensive Income for for the period									
	[comprising Profit/(Loss)for the period (after tax) and									
	other comprehensive Income (after tax)]	(36.85)	19.82	63.32	(21.43)	42.97				
6	Equity Share Capital	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71				
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown									
	in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	1,297.36	-	1,278.87				
8	Earnings per Share (for continuing and									
	discontinued operations)									
	(Face Value of 10/- each)									
	Basic & Diluted (*Not Annualised)	*(0.25)	*0.14	0.43	*(0.15)	0.34				
# Th	e Company doesn't have any Exceptional & Extraordinary Items	s.								

(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/ Annual Financial Results are available on Stock Exchange Websites (www.bseindia.com) and on the Company's Website (www.kryptongroup.com).

(JAY SINGH BARDIA) Managing Director Place: Kolkata Date: 14.09.2020 DIN: 00467932



Kkalpana Industries (India) Limited

Regd Office: 2B, Pretoria Street, Kolkata - 700 071 Telephone: 91-033-2282 3744/3745/3699/3671, Fax: 91-033-2282 3739 E-Mail: Kolkata@kkalpana.co.in, Website: www.kkalpanagroup.com CIN: L19202WB1985PLC039431

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 01ST QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020.

					710.117	uoo (caocpi po	i onare data,
			STANDALONE		(CONSOLIDATE	
SI			Quarter ended Year end		Quarter ended		Year ended
No.	PARTICULARS	30.06.2020 (Un-audited)	30.06.2019 (Un-audited)	31.03.2020 (Audited)	30.06.2020 (Un-audited)	30.06.2019 (Un-audited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from Operations	22862.35	49481.59	176221.02	22868.11	48171.83	174469.55
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or						
	Extraordinary items)	16.61	931.70	3032.61	19.97	938.02	2973.91
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and /or						
	Extraordinary items)	16.61	931.70	3032.61	19.97	938.02	2973.91
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (after Exceptional and /or	0.54	005.05	0000 70		040.00	0000 00
_	Extraordinary items)	6.54	605.25	3063.79	9.02	610.33	3022.29
5	Total comprehensive income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	6.54	605.25	3046.28	9.02	610.33	3004.78
6	Net Profit after Tax and Share of Profit of Subsidiary/ Associate	0.54	605.25	3040.26	9.02	611.52	3022.48
	Equity Share Capital	1881.46	1881.46	1881.46	1881.46	1881.46	1881.46
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance			1001110	1001110	1001110	1001110
	Sheet of the previous year			32746.5			32624.9
9	Earnings per share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinuing				1		
	operations)				1		
	Basic:	0.01	0.64	3.26	0.01	0.65	3.21
	Diluted:	0.01	0.64	3.26	0.01	0.65	3.21
⊢.	Diato.	0.01	0.01	0.20	0.01	0.00	

-) The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the 01st quarter ended 30th June, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results(Standalone & Consolidated) for the 01st quarter ended 30th June, 2020 are available on the website of BSE Ltd at www.bseindia.com & Calcutta Stock Exchange Limited at www.cse india.com and that of the Company at www. kkalpanagroup.com
- 2) The Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the 01st quarter ended 30th June, 2020 have been reviewed by the audit committee and have also been approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 14th September , 2020. The statutory Auditor has given Limited Review Report for the above financial
- 3) The company is engaged primarily in the business of different grades of plastic granules which constitute single reporting segment Accordingly, the company is a single
- segment company in accordance with "Indian Accounting Standards 108 Operating Segment". 4) The figures for the corresponding previous period has been re-grouped / re- classified wherever necessary, to conform to the current period figures
- 5) In March 2020, the World Health Organisation declared coronavirus (Covid-19) to be a pandemic and consequently on 24th March, 2020, the Government of India ordered a nationwide lockdown which got extended in phases. The outbreak of Covid-19 pandemic in India has caused significant disturbance and slowdown of economic activities The Company's business operation have been impacted by way of interrruption of production, supply chain etc. "The Company has taken various precautionary measures to protect its employees from Covid-19. The company has assessed the impact of this pandemic on its business operations and and has considered all relevant internal and external information available upto the date of approval of these financial results. In determining the recoverability and carrying values of Property, Plant and Equipment Intangible assets, Investments, Trade and Other Receivables, Inventories and other financial statement captions. The impact of Covid-19 pandemic on the overall economic environment being uncertain, may effect the underlined assumptions of estimates used in preparation of these financials resulting whereby actual outcome may differ from those assumptions and estimates considered at the date of approval of these financial results. The company will continue to closely monitor the situation and any materia changes to future economic condition. From mid of April, the Company has resumed it business activities in phased manner, in line with directives issued by the Central
- The Consolidated Results includes Result of a) The Company's Wholly owned Subsidiary Company viz :Plastic Processors and Exporter Private Limited (b) Associate Company viz. Kkalpana Plastick Ltd, in which the company holds 36.23% of its paid up Equity Share Capital

FOR KKALPANA INDUSTRIES (INDIA) LTD

Place : Kolkata

MR. NARRINDRA SURANNA

Continuous Excellence **Through** Performance

Flipkart looks to create 70k jobs this festive season

Additional indirect jobs will be created at seller-partner locations and kiranas

Bengaluru, 15 September

-commerce giant Flipkart said it will help generate over 7,5,2 direct and millions of indirect seasonal jobs as it gears up for the upcoming festive season and its Big Billion Days (BBD).

This would create direct job opportunities across the Walmart-owned company's supply chain, including delivery executives, pickers, packers, and sorters. Additional indirect jobs will be created at Flipkart's seller-partner locations and kirana stores, the firm said. This will be supplemented by job creation at ancillaries like vendor locations, freight partners, as the entire ecosystem scales up.

"We are focused on creating impactful partnerships that offer great consumer experience while creating additional opportunities for progress of the entire ecosystem as it scales up for the BBD," said Amitesh Jha, senior vice-president, Ekart and Marketplace, Flipkart.

"As a front runner in e-commerce, our training and investment in the workforce is widely recognised, and contributes to skill development and enhances employability. By generating employment and enabling our sellers to scale up their businesses during this time, we're doing our part to drive growth in the industry and the economy."

BBD requires investments for capaconboarding of more than 50,000 kirana stores by Flipkart for last-mile delivery will also create thousands of seasonal jobs.



IT'S A FULL CART

- Requires investments for capacity, storage, sorting, packaging, human resources, training, and delivery
- Will collaborate with more than 50,000 kiranas for last-mile delivery
- Conducts training programmes for its direct hires in various aspects of the supply
- Provides separate training in the area of warehouse

chain

management and packaging

Has a technologyenabled supply chain, delivering millions of shipments across 100 per cent serviceable pincodes

various aspects of supply chain management through a mix of classroom and digital training. These include customer service, delivery, installation and safety, and sanitisation measures, ity, storage, sorting, packaging, human along with the handling of handheld resources, training, and delivery. The devices, PoS machines, scanners, various mobile apps and enterprise resource planning.

For millions of seller-partners, micro, small and medium enterprises Flipkart is conducting training and artisans, Flipkart provides separate

programmes for its direct hires on training in warehouse management and packaging. The hiring and upskilling is being done, following the central National government's Development Mission.

Flipkart said it has a tech-enabled robust supply chain, delivering millions of shipments across 100 per cent serviceable pincodes serving millions of consumers. The company said it has created millions of local job opportunities over the years through its supply chain.

Nasscom sees red over data governance report

SALISHWAR

Mumbai, 15 September

Information technology industry body Nasscom has identified certain gaps in the non-personal data (NPD) draft report, saying that it may require further detailing and reconsideration.

The body said mandating data sharing could reduce incentives to invest in the collection and processing of data, the very purpose that is sought to be encouraged through the framework. "This obligation (to share start-uns at a disadvanraise funds or compete, as need to share their data,"



The data-sharing obligations could place India at risk, given that this may not exist in other jurisdictions

undesirable, it added.

Nasscom has recommended that the scope of mandatory sharing be limited to only certain catdata) could put the Indian egories, with high social, its draft recommendaeconomic and public tage in their ability to value, as may be identithey would eventually based on well-established to be utilised by various said Nasscom. The data- ommended the creation nisations. The panel had sharing obligations could of a 'negative list' of NPD also recommended setting generally place India at a that may be explicitly up of a new authority disadvantage, given that excluded from the scope which would be empowsuch obligations may not of regulation, including ered to oversee the usage exist in other jurisdictions all foreign data, price-sen- and mining of such NPD.

(countries) and such sitive data, and algooutcomes would be rithms and source code. A panel headed by

Infosys co-founder Kris Gopalakrishnan sought NPD being considered for public comments on the draft NPD governance framework rules in July. In tions the panel had suggested that NPD generated fied by the committee in the country be allowed use-cases. It has also rec- domestic firms and orga-

Dilip Cherian opts out of Taj GVK board

Dilip Cherian, founder of Delhi-based Perfect Relations that handles the public relations account of Cyrus Mistrycontrolled Shapoorji Pallonji (SP) group, has sent his regrets to GVK saying he would not be able to join the board of Taj GVK Hotels, a joint venture between the Tatas and GVK group.

The move comes just days after the hotel company said in a regulatory filing on September 10 that the board had approved Cherian's appointment as a director for five years. It would be subject to approval in an annual general meeting, the filing said.

Cherian, confirming the development, said: "I am not joining the board and have expressed regret to this effect already.

as the SP group, which is a minority shareholder in Tata Sons, has been waging a legal battle with the Tatas after Mistry was ousted as chairman of the Tata Sons.

The Tatas have around 26 per cent stake in Taj GVK and Indian Hotels Company Limited Managing Director Puneet Chatwal is on the board of the SURAIEET DAS GUPTA

Adani, GMR among 20 firms keen on revamping New Delhi rly station

New Delhi, 15 September

At least 20 national and international firms, including Société Nationale des Chemins de Fer Français, Arabian Construction Company. Infrastructure Anchorage Investments Holdings, Adani, GMR, and JKB Infrastucture. have evinced an interest in the redevelopment work of New Delhi railway station.

Development Authority (RLDA) has invited online bids from private players to redevelop the station into an integrated commercial, retail, and hospitality hub.

The

Rail

The objective of this ambitious project is to position the interest from leading global senger handling fees collected through overhauling of infrastructure and provision of stateof-the-art amenities, such as an elevated concourse and multilevel car parking. The project will be developed on a designmodel for a concession period of 60 years.

It is expected to incur a capital expenditure of around ₹6,500 crore and is slated to be completed in four years. "The redevelopment of New Delhi earn revenue from several



The Rail Land Development Authority has invited online bids from private players to redevelop the station into an integrated commercial, retail, and hospitality hub

transform New Delhi railway station into a world-class transit hub, in line with Prime Minister's vision of New India. This station will be a one-stop destination for retail, commerbuild-finance-operate-transfer cial, and hospitality. It will also boost real estate and ensure cascading development of New Delhi and surrounding regions," said Ved Parkash

Dudeja, vice-chairman, RLDA. The concessionaire will railway station has attracted components, including pasrooms, an elevated concourse

station as a multi-modal hub firms. The project aims to via ticket sales revenue from passenger facilities within the station, such as retail areas, lounges, parking, advertisement spaces, and income from the development and lease of commercial components. The phased redevelopment

encompasses station redevelopment, development of associated infrastructure, relocation of social infrastructure as well as the refurbishment of railway offices and railway quarters. Food courts and rest-

with segregation of arriving and departing passengers, refurbished platforms with easy access from the concourse level, mezzanine level exclusively for passenger facilities such as lounges, an elevated road network with multiple entry and exit points, a multilevel car parking facility, and green building provisions, such as optimum use of natural ventilation and lighting, will be some of the key highlights of the redeveloped station.

The station is the largest and second busiest in the country and handles approximately 450,000 passengers daily (approximately 160-170 million passengers annually).

It also handles 400 trains per day, which are expected to increase due to higher operational efficiencies resulting from the redevelopment and

better yard utilisation. RLDA is currently working on 62 stations in a phased manner, while its subsidiary, has taken up another 61 sta-

Indian Railway Stations Development Corporation, tions. In the first phase, RLDA has prioritised prominent stations like New Delhi, Tirupati, Dehradun, Nellore, and Puducherry for redevelopment.



Ghar Ki Baat पंजी. कार्या.: 9वीं मंजिल अंतरिक्ष भवन, 22 के. जी. मार्ग, नई दिल्ली—110001 फोन : 011—23445200, वेबसाइट : www.pnbh सूचना— स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री

हम सर्वसाधारण से नीचे वर्णित अनुसार शाखा कार्यालय पते के लिए हमारी स्थायी परिसंपन्तियों की बिकी के लिए बोलियां आमंत्रित करते हैं :-

८ ओएमआर (चैन्नई) 1 नेताजी सभाष पैलेस (दिल्ली

9. तीसरी मंजिल, अंतरिक्ष भवन (दिल्ली) 2. मल्लेश्वरम (बैंगलोर)

3. आईटीपीएल (बैंगलॉर) 10. थाणे (मुंबई) 4. वैशाली नगर (इंदौर) 11. देहरादेन

12. पिम्परी (पुणे) 5. हिंजेवाडी (पणे) 6. प्रभादेवी (मुंबई)

किसी भी बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार है।

इच्छुक पार्टियों से निविदा सेक्शन के तहत विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.pnbhousing.com देखने का अनुरोध है।

आवेदन / बोलियां फॉर्म हमारी वेबसाइट से निशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को किसी भी कारण से, चाहे कुछ भी हो के लिए

अलंकित फिनसेक लिमिटेड

सीआईएन : U74899DL1995PLC069212 पंजीकत कार्यालय: 205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स झंडेवालान एक्सटेंशन

नई दिल्ली-110055 दूरभाष नं. : +91-11-4254-1904, ईमेल : info@alankit.com, director@alankit.com

फार्म नं. सीएए 2 धारा 230(3) और नियम 6 और 7, कंपनी आवेदन संख्या सीए(सीएए) 60(एणडी) 2020 की अलंकित फिनसेक लिमिटेडआवेदक सदस्यों की बैठक और विज्ञापन की सूचना

रतद्वारा सचना दि गई है की 11 सितम्बर 2020 के एक आदेश द्वारा नेशनल कंपनी लॉ टिब्यन ट्रिब्यूनल) की नई दिल्ली बेंच ने अलंकित एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफर कंपनी नम्बर 1) औ हुबेर रीसायकल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफर कंपनी नुम्बर 2) और अलंकित फिनसेव लेमिटेड (ट्रांसफेरे कंपनी) की समामेलन की प्रस्तावित योजना को विचार करने के उद्देश्य से आवेदक , हंपनी के इक्विट शेयरधारकों और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारो ('स्कीम' या 'इस योजना की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के स या बिना मंजरी दी जाएगी।

इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, दिल्ली—110055 में सोमवार, 19 अक्टूबर, 2020 को दोपहर 12.30 बजे आयोजित की जाएगी उस सम एवं स्थान पर उक्त इक्विट शेयरधारकों को उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता हैं।

योजना की प्रति और धारा 230 के बयान के लिए आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या इस अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री रेखा मित्तल, 8/19, अपर ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल —110008 के कार्यालय में नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। बैठक में भाग लेने और मतदान के 6 अधिकृत व्यक्ति या प्रॉक्सी वोट दे सकते हैं, बशर्त कि निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी आवेदक कंपनी . पंजीकृत कार्यालय 205—208, अनारकनी कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055 बैतक के 48 घंटे पहले तक जमा करवा दे ।

आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रॉक्सी के फॉर्म नि:शुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।

ट्रिव्यूनल ने उपर्युक्त समामेलन के लिए श्री रीतेश कुमार अग्रवाल को अधक्ष और श्री सुशील कुमार गुप्त को बैकल्पिक अधक्ष के रूप में नियुक्त किया है , यदि बैठक द्वारा अनुमोदित है, तो ट्रिव्युनल की बाद की मंजरी के अधिन होगा।

स्थान 'नर्द टिल्ली

रीतेश कमार अग्रवाल

	ा : १५ सितम्बर, २०२०	रीतरा कुनार अग्रपाल बैठक के लिए नियुक्त अधक्ष
_	3	मपत्र जी
	इच्छा की अ	भिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(दि	वालिया और शोधन अक्षमता (निगमित व्या 2016 के विनिय	क्तियों के लिए दिवालिया समाधान प्रक्रिया) विनियमन, मन 36ए (1) के अधीन)
		गिक विवरण
1.	निगमित कर्जदार का नाम	मैसर्स ससी पावर प्राइवेट लिमिटेड
2.	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि	31.08.1999
3.	प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीयन किया गया है	कंपनियों के पंजीयक-नई दिल्ली
4.	निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी नम्बर/लिमिटेड लॉयब्लिटी साझेदारी आईडेंटिफिकेशन नम्बर	U40101DL1999PTC101362
5.	निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय	पंजीकृत कार्यालयः ए-60, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
	तथा मुख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता	फेज-II, नई दिल्ली-110020
6.	निगमित कर्जदार के दिवालिया आरम्भ होने की तारीख	29.01.2020 (आदेश प्राप्ति की तिथि 31.01.2020)
7.	इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण की तारीख	16.09.2020
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों हेतु पात्रता जहां उपलब्ध है:	cirpsasipower@gmail.com पर ईमेल भेज कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है
9.	धारा 29ए के अधीन लागू अपात्रता के नियम जहां उपलब्ध है:	cirpsasipower@gmail.com पर ईमेल भेज कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है
10.	इच्छा की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	25.09.2020
11.	प्रत्याशित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी होने की तिथि	
12.	अनंतिम सूची की आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि	28.09.2020
	प्रस्तावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	29.09.2020
	सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा प्रत्याशित समाधान आवेदकों हेतु प्रस्ताव योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	30.09.2020
15.	सूचना ज्ञापन तथा और जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने का प्रारूप	भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवालिया विनियमन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36बी(1) के अधीन इसे प्राप्त करने के पात्र सभी प्रत्याशित समाधान आवेदकों (पीआरए) के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जाएगा।
16.	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	20.10.2020
17.	समाधान पेशेवर के पास समाधान योजनाएं जमा करने का प्रारूप	समाधान पेशेवर के पते यानि के-37/ए, बेसमेंट, कैलाश कींलोगी, नई दिल्ली-110048 पर मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तत्पश्चात एक ईमेल द्वारा पुष्टीकरण

हस्ताक्षर

समाधान पेशेवर (मैसर्स ससी पावर पादवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन) के मामले में आईपी पंजीयन सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00010/2016-17/10014 पंजीकृत कार्यालयः एच-38, एलजीएफ, जंगपुन एक्सटेशन, इरोस कॉमप्लेक्स के निकट, नई दिल्ली, 110014 पत्राचार का पताः के-37/ए, बेसमेंट, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 दिनांक : 16/09/2020 मोबाइल नं.: 9999883792 एवं 9310201908 ई-मेलः cirpsasipower@gmail.com, pankaj.khetan@yahoo.com

सीओसी के अनुमोदन के साथ

पंकज खेतान, दिवालिया पेशेवर

पंजीयन सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00010/2016-17/10014

पताः एच-38, एलजीएफ, इरोस सिनेमा के निकट

के-37/ए, बेसमेंट, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048

cirpsasipower@gmail.com पर ईमेल भेज कर

ांगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली, 110014

ईमेल : pankaj.khetan@gmail.com

ईमेल : cirpsasipower@gmail.com

पंकज खेतान

पंकज खेतान,

16.09.2020

समाधान योजना जमा करने की अनुमानित

19. समाधान पेशेवर का नाम एवं पंजीयन

20. बोर्ड के साथ पंजीकृत समाधान पेशेवर

21. समधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल

का नाम, पता एवं ईमेल

22 और विवरण जहां उपलब्ध है

23. प्रपत्र जी के प्रकाशन की तारीख

तिथि

संख्या

स्थानः नई दिल्ली

अलंकित एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन : U65100DL2011PTC215556

पंजीकृत कार्यालय : 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

दूरमाष नं. : +91—11—4254 1234 / 1904, ईमेल : info@alankit.com, director@alankit.com फार्म नं. सीएए 2 धारा 230(3) और नियम 6 और

कंपनी आवेदन संख्या सीए(सीएए) 60(एणडी) 2020 की अलंकित एसोसिएट्स ग्राइवेट लिमिटेडआवेदक ...आवेदक कंपनी सदस्यों की बैठक और विज्ञापन की सूचना

द्वारा सूचना दि गई है की 11 सितम्बर, 2020 के एक आदेश द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यून हेब्युनल) की नई दिल्ली बेंच ने अलंकित एसोसिएटस प्राइवेट लिमिटेड (टांसफर कंपनी नम्बर 1) अ बेर रीसायकल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफर कंपनी नम्बर 2) और अलंकित फिनसे ि लिमिटेड (ट्रांसफेर कंपनी) की समामेलन की प्रस्तावित योजना को विचार करने के उद्देश्य से आवेदर कंपनी के इक्विटि शेयरधारकों और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों (स्कीम' या 'इस योजना की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के स या बिना मंजरी दी जाएगी।

उक्त आदेश के अनुपालन में और उसके अनुसार, आगे नोटिस दिया गया है कि आवेदक कंपनी इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक 205—208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, न दिल्ली—110055 में सोमवार, 19 अक्टूबर, 2020 को सुबह 10.00 बजे आयोजित की जाएगी उस सम रवं स्थान पर उक्त इक्विटि शेयरधारकों को उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता हैं।

गोजना की प्रति और धारा 230 के बयान के लिए आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या इस अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री रेखा मित्तल, 8/19, अपर ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ल —110008 के कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। बैठक में भाग लेने और मतदान के लि मधिकृत व्यक्ति या प्रॉक्सी वोट दे सकते हैं, बशर्त कि निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी आवेदक कंपनी व ांजीकत कार्यालय २०५–२०८. अनारकनी कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055

आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रॉक्सी के फॉर्म निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। ट्रिव्यूनल ने उपर्युक्त समामेलन के लिए श्री रीतेश कुमार अग्रवाल को अधक्ष और श्री सुशील कुमार गुप्त को बैकल्पिक अधक्ष के रूप में नियुक्त किया है , यदि बैठक द्वारा अनुमोदित है, तो ट्रिव्युनल की बाद र

तिथि : 15 सितम्बर, 2020

ांजरी के अधिन होगा। रीतेश कुमार अग्रवा स्थान :नई दिल्ली

बैठक के लिए नियुक्त अधक्ष

कबेर रीसायकल प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन : U74110DL2008PTC184268 पंजीकृत कार्यालय: 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन

नई दिल्ली-110055 दूरभाष नं. : +91-11-4254 1234 / 1904, ईमेल : info@alankit.com, director@alankit.com फार्म नं. सीएए 2

धारा 230(3) और नियम 6 और 7, कंपनी आवेदन संख्या सीए(सीएए) 60(एणडी) 2020 की कुबेर रीसायकल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सदस्यों की बैठक और विज्ञापन की सूचना

दारा सचना दि गर्द है की 11 सितम्बर 2020 के एक आदेश दारा नेशनल कंपनी लॉ टिब्यन ट्रेब्यूनल) की नई दिल्ली बेंच ने अलंकित एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफर कंपनी नम्बर 1) औ हुबेर रीसायकल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफर कंपनी नम्बर 2) और अलंकित फिनसेव मिटेड (टांसफेरे कंपनी) की समामेलन की प्रस्तावित योजना को विचार करने के उद्देश्य से आवेदर हंपनी के इंक्विटि शेयरधारकों और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारो ('स्कीम' या 'इस योजना की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के स या बिना मंजरी दी जाएगी।

उक्त आदेश के अनुगालन में और उसके अनुसार आगे नोटिस दिया गया है कि आवेदक कंपनी : इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, न देल्ली—110055 में सोमवार, 19 अक्टूबर, 2020 को सुबह 11.00 बजे आयोजित की जाएगी उस सम एवं स्थान पर उक्त इक्विटि शेयरधारकों को उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता हैं।

योजना की प्रति और धारा 230 के बयान के लिए आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या इसव अधिकत प्रतिनिधि सश्री रेखा मित्तल ८/१९ अपर गाउंड फ्लोर वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली जानकृत आताना दुना रखा नातारा, छ न, उपन आठ नतार जन के हिंदी —110008 के कार्यालय में निःशुक्क प्राप्त किया जा सकता है। बैठक में भाग लेने और मतदान के लि अधिकृत व्यक्ति या प्रॉक्सी वोट दे सकते हैं, बशर्त कि निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी आवेदक कंपनी व पंजीकृत कार्यालय 205–208, अनारकनी कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 बैठक के 48 घंटे पहले तक जमा करवा दे। आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रॉक्सी के फॉर्म निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।

द्रिव्यूनल ने उपर्युक्त समामेलन के लिए श्री रीतेश कुमार अग्रवाल को अधक्ष और श्री सुशील कुमार गुप्त को बैकल्पिक अधक्ष के रूप में नियुक्त किया है , यदि बैठक द्वारा अनुमोदित है, तो द्रिव्युनल की बाद की मंजूरी के अधिन होगा।

हस्ता— स्थान :नई दिल्ली रीतेश कुमार अग्रवाल तिथि : 15 सितम्बर, 2020 बैठक के लिए नियुक्त अध

ओमेक्स ऑटोज लिमिटेड

प्लाट नं. बी–26, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–32, गुरुग्राम, हरियाणा– सीआईएनः L30103HR1983PLC026142. वेबसाइटः www.omaxauto.com

ईमेलः investors@omaxauto.com, फोनः +91-124-4343000, फैक्सः +91-124-2580

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

			बारह	
क्र. सं.	विवरण	तिमाही	माह	तिमाही
41.	14401	समाप्त	समाप्त	समाप्त
		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019
1	परिचालनों से कुल आय	2398.71	46667.78	17,387.45
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट			
	और / या असाधारण मदों के पूर्व)	(1570.77)	695.25	1044.76
3	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)			
	(विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	(1570.77)	4652.75	3598.85
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)			
	(विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	(1091.49)	4358.31	2898.85
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय	(1122.08)	4219.71	2898.85
	[अवधि के लिए लाभ/(हानि)(कर पश्चात) और			
	अन्य समग्र आय (कर पश्चात)]			
6	इक्विटी शेयर पूंजी	2,138.82	2,138.82	2,138.82
7	आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	27125.72	22905.99	22905.99
	पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में			
	दर्शाए अनुसार			
8	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10 / – प्रत्येक के)			
	(चालू और बंद प्रचालनों के लिए)			
1.	मूलः	(5.10)	20.38	13.55
2.	तरलः	(5.10)	20.38	13.55
नोट:-	•			

ए) उपर्युक्त सेबी (सूचीबृद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज (ऑ) में पेश किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत पूण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट http://www.bseindia.com और www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.omaxauto.com पर उपलब्ध है।

बी) कुल समग्र आय (कर का निवल) इंड एएस के अनुसार बीमांकक लाम/हानि के उचित मूल्य का परिणामी प्रभाव

			(*: *::-:: 17
विवरण	तिमाही समाप्त	बारह माह समाप्त	तिमाही समाप्त
	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019
अन्य समग्र आय			
 मद जो लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे 	0.00	(9.49)	O.00
ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि – कर परिसंपित्तयाँ / (देयता) में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे	0.00	2.39	0.00
iii) डेरीवेटिव हैजिंग इंस्ट्रूमेंटों पर मूल्यांकन लाभ ⁄ (हानि)	(40.88)	(37.13)	0.00
(iv) उपर्युक्त पर कर प्रभाव	10.29	9.34	0.00
		हिते ओमेक्स ३	ॉटोज लिमिटेड

स्थानः गुरुग्राम दिनांकः 14 सितंबर, 2020

नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 011-40230166)

तविंदर सिंह

पूर्णकालिक निदेशन

(ভীআর্ছएন: 01175243)

इंडियन बैंक Indian Bank

ई-मेल : br.samlb newdelhi@allahabadbank.in

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों की पुनः बिक्री हेतु विक्रय सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के

तहत अचल आस्तियों की पुनः बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभृत क्रेडिटर (इण्डियन बैंक ई-इलाहाबाद बैंक) के पास बंधक/प्रभारित/दृष्टिबन्धक/प्लेज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति/यों, जिसका भौतिक कब्जा ई-इलाहाबाद बैंक (अब इण्डियन बैंक), प्रतिभृत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया था, की बिक्री कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधकर्ताओं से प्रतिभूत क्रेडिटर के बकाया निम्नलिखित राशि की वसूली हेतु 07.10.2020 को ''जो है यही है'' 'जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। ओरक्षित मुल्य नीचे वर्णित है तथा जमा की जाने वाली धरोहर राशि क्रमशः वर्णित है।

सरफाएशी अधिनियम, 2020 के तहत 07.10.2020 को 11.00 बजे पर्वा. से 4.00 बजे अप. तक

क्र.	कर्जदार(रों) का नाम	जमानती(यों)⁄बंधककर्ता	अचल सम्पत्ति यों का विवरण	भौतिक⁄सांकेतिक		बैंक के संज्ञान में स्थानीय	(vii)	आरक्षित मूल्य		
सं.		के नाम		कब्जा	ऋण की राशि	स्वशासी निकाय तथा	(ix)	जमा धरोहर राशि		
						सरकारी प्राधिकरण के	\			
						बकाया ऋणभारों, यदि				
						कोई हो, का विवरण				
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)		न्यूनतम वृद्धि राशि		
1.	मैसर्स धवन एग्जिम (प्रा.) लि.	1. श्री साहिल धवन	1. खाली भूमि माप 9 बीघा 3 बिस्वा, मुस्तैल सं.	रचनात्मक कब्जा	14.09.2020 को रु. 918.12	बैंक को ज्ञात नहीं	-	रु. 684.00 लाख		
	(1. श्री साहिल धवन, निदेशक	(निदेशक तथा बंधककर्ता)	61, किला सं. एस 24(4-16), 23/2 (1-		लाख एवं बैंक के बकाये की					
	पुत्र श्री सुरेश कुमार धवन, 2.	पुत्र श्री सुरेश कुमार धवन	12), 25 मिन (2-08), मुस्तैल सं. 66, किला		वसुली की तिथि तक भावी ब्याज			रु. 68.40 लाख		
	श्रीमती रित्रू धवन, निदेशक पत्नी	2. श्रीमती रित् धवन	सं. 05 मिन (0-07) ग्राम डेरा मंडी, तहसील मे	हरौली, नई दिल्ली-	+ मैसर्स धवन एग्जिम (प्रा.)			रु. 1.00 लाख		
	श्री सुरेश कुमार धवन	(निदेशक एवं जमानती)	110074 की राजस्व सम्पदा में स्थित		लि. के खाते के परिप्रेक्ष्य में व्यय					
	शाखा : सैम शाखा, नई दिल्ली	पत्नी श्री सुरेश कुमार धवन	2. खाली भूमि माप 11 बिस्वा, मुस्तैल सं. 61,	किला सं. 25 मिन	आदि सहित (ईसीजीसी दावा					
	, ,	• •	(0-11), ग्राम डेरा मंडी, तहसील मेहरौली, न	नई दिल्ली-110074	राशि सहित)					
			की राजस्व सम्पदा में स्थित							
ई− -	-नीलामी की तिथि एवं समय									

न्युनतम संविदा वृद्धि राशि ऊपर उल्लिखित है।

पमहाप्रबन्धक, सैम शाखा, प्रथम तल, 17, पार्लियामेंट स्टीट, नई दिल्ली-110001 (दरभाष : 011-40230166) -मेल : br.samlb newdelhi@allahabadbank.in armbdelhi@

अधिक विवरण तथा नियम एवं शर्तें डाउनलोड करने हेतु कृपया देखें

ii)www.mstceccomerce.com/auctionhomenbapifindex.jsp iii)https://www.ibapi,in

iv) https://www.indianbank in

सम्भावित संविदाकारों के लिए महत्त्वपूर्ण सूचना : संविदाकार को निम्नलिखित औपचारिकताएँ अग्रिम में पूर्ण करनी होंगी :

चरण 1. संविदाकार क्रेता का पंजीकरण : संविदाकार को अपने मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी का उपयोग करते हुए ई-नीलामी पोर्टल (लिंक : www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

्र प्राचित्र करा करा है। **चरण** 2. **केवाईसी सत्यापन** : संविदाकार को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा जिसमें 2 कार्यकारी दिवस तक लग सकते हैं। चरण 3. अपने ग्लोबल इंएमडी वालेट में इंएमडी राशि का अन्तरण : ई-नीलामी पोर्टल पर सुजित चालान नम्बर का उपयोग करते हुए एनईएफटी/ट्रांसफर मोड का उपयोग करके राशि का अन्तरण ऑनलाइन/ऑफलाइन करन पर्युक्त चरणों को संविदाकार द्वारा उचित समय पूर्व अर्थात नीलामी तिथि से पूर्व पूरा किया जाना है।

(सी.ओ. 254-260, अवाई शनमुगम सलाई, रोयापेट्टा, चेन्नई-600014)

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, Subhash Chandra S/o Late Sh. Prem Chandra Gupta, Director of M/s Tirupati Balaji Media Networking (P) Ltd that I have lost all DDA documents vide FIR/NCR/LR no. 45504/2020 Dt 31/07/2020, now we have found all DDA papers regarding this property No. 948 Measuring 50 Sq. Mtr. situated at IFC Gazipur, Delhi and we have

That I have lost my original documents i.e. General Power of Attorney

agreement to sell regarding this property.

Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at address/Phone No. 9899646873 within 15 Days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest objection with respect to this property, can personally inform me.

MACHINO PLASTICS LTD. कार्यालयः प्लॉट नं. ३, मारूति जे.वी कॉम्प्लैक्स,गुड़गांव, हरि

CIN: L25209HR2003PLC035034 शेयर प्रमाणपत्र(ऑ) के गुम होने की सूचना

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र(ओं) गुम हो चुके हैं और यहां दिए पंजीकृत होल्डरों ने डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी में आवेदन किया है। गुम शेयर प्रमाणपत्र(ओं) से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है

विवरण	फोलियो	विशिष्ट सं.	शेयर प्रमाणपत्रो	शेयरों की
	नं.	(से–तक)	सं.	संख्या
सोलिड इनवेस्टमेंट	10083	4313575-4313624	19089	50
प्राइवेट लिमिटेड		2836490-2837539	12479	50
नी ने स्टॉक एक्सचेंज(3	भों) जहां ये श	ोयर / (ओं) सूचीबद्ध हैं.	. इन शेयर प्रमाणपत्र	(ओं) के गम

कंपना ने स्टोक एक्सचज(आ) जहां ये शयर/ (आ) सूचाबद्ध है, इन शयर प्रमाणपञ्ज(आ) के गुम को अधिसूचित किया है। कोई व्यक्ति जो इन शेयर प्रमाणपञ्ज(ओं) के संबंध में कोई दावा रखता है, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर उक्त दिए पते पर कंपनी सचिव को लिखे। यदि उक्त 15 दिनों के भीतर कोई विरोध प्राप्त नहीं होता है, कंपनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपञ्ज(ओं) को जारी करने की प्रक्रिया करेगा। त्रनाणियत्त्रा) या जारा परना गत्रात्राया परना। बुप्तीकेट शेयर प्रमाणपत्र(ऑ) जारी होने के बाद, मूल शेयर प्रमाणपत्र(ऑ) रद्द कर दिए जाएंगे और मूल शेयर प्रमाणपत्र(ऑ) के साथ किसी व्यक्ति द्वारा किए व्यवहार लागत और परिणामों के

लिए अपने जोखिम पर करेगा और कंपनी किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगी। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को उक्त शेयर प्रमाणपत्र(ओं) के साथ किसी भी खरीद या व्यवहार न करने की मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेड के लिए

स्थान : गुरुग्राम दिनांक : 14.09.2020 हस्ता./- रीतिका पंत

रेल पहिया कारखाना/बेला _{जिना-सारण, (बिहार)-841221}

पूर्वा चारण, (रेहार)-841221
पूर्वा ई-निविदा सुवना सं०. आर डब्ल्यूणी/मंडार/वर्कर/एडीमीटी/2020-21/03,
दिनांक: 10.09.2020, निविदा खुलने की तिथिः
16.10.2020 Tender No. S. RWP_TPT
SCRAPRAIL. 19. 208. Tender Due on
16.10.2020. प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक / रेल
पहिया कारखाना, बेला भारत के राष्ट्रपति के लिए
एव उनकी और से नविमित्त परिकों की दुलाई हेतु
ऑनलाइन "ई-खुली निविदा" मारतीय रेलवे ईप्रोक्योरमंट पोटल (आई.आर.ई.पी.एस.
www.ireps.gov.in के माध्यम से आमंत्रित
करते हैं.— 1. कार्य का नाम, स्थान, मात्रा एवं
समापन की अविधः Cutting, loading and
transportation of Heavy Melting Scrap
(HMS) consisting of Condemned Rail
(Qty. 5000 MT) from various locations of
East Central Railway (under distance slab

East Central Railway (under distance slab 0-200 KM (taking average lead distance 100 KM) to Rail Wheel Plant, Bela. Post: Arvind Nagar, Dist: Saran (Chhapra) Bihar-In two schedules. समापन अविधः एल. ओ.ए. के निर्गत तिथि से 12 माइ 2. अनुमानित लागतः रु. 54.44,300/— 3. क्याना (ई. एम. डी) की राशिः रु. 10,8900/— 4. निविदा बन्द होने की तिथि एवं समयः 16.10.2020 up to 14:00 hrs. 5. वेबसाइट विवरण, नोटिस बीड का स्थान जहाँ निविदा की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने एवं निविदा जो पूर्ण जानकारी प्राप्त करने एवं निविदा जाम करने हतु आईआरईपीएस के आधिकारिक वेबसाईट अधार्त www.ireps.gov. in. का अवलोकन करें। 5. बोली प्रस्तुत करने वाली भावी कंपनियों को ऊपर की निविदाओं के संबंध में शुद्धिपत्र सृष्टित अनुयतन

बोली प्रस्तुत करने वाली भावी कंपनियों को ऊपर की निविदाओं के संबंध में शुद्धिपत्र सहित अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल (ireps. gov.in) के साथ संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाएगी।

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक/रेपका/बेला डब्ल्यूपी./सी.पी.आर.ओ./ए.डी.मी.टी./2020–21/39

Fast Central Railway (under distance sla

KAPIL RAJ FINANCE LIMITED

L65929DL1985PLC022788 23-B, First Floor, Chirag Delhi, Opposite Satrang Bhawan, New Delhi 110017

Email: Kapilrajfin@gmail.com Website: www.kapilrajfinanceltd.com ANNEXURE I

Format for Newspaper Publishing Purpose (Standalone / Consolidated)

	[See Regulation 47(1)	1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] (Rs. In						
	D. diadau		STANDALONE		CONSOLIDATED			
SI. No.	Particulars	Quarter Ending 30th June, 2020	Year Ending 31st March, 2020	Quarter Ending 30th June, 2019	Quarter Ending 30th June, 2020	Year Ending 31st March, 2020	Quarter Ending 30th June, 2019	
1.	Total Income from Operations	-	-	-		-	-	
2.	Net Profit / (Loss)for the period (before Tax,							
	Exceptional and/or Extraordinary items#)	12.02	0.90	2.31	12.02	0.90	2.31	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax							
	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	12.02	0.90	2.31	12.02	0.90	2.32	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax							
	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	8.90	0.70	1.71	9.06	0.01	1.84	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period							
	(after tax)	-	_	_	-		-	
6.	Equity Share Capital	14	14	514.00	514	514	514	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)							
	as shown in the Audited Balance Sheet of the							
	previous year	-	-	-		- 1	-	
8.	Earnings Per Share							
	(for continuing and discontinued operations) -							
	1. Basic:	017	0.01	0.03	0.18	0.00	0.04	
	2. Diluted:	017	0.01	0.03	0.18	0.00	0.04	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results filed wit the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (s) i.e www.bseindia.com and the listed entity i.e www.kapilrajfinanceltd.com.

The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

For Kapil Raj Finance Limited Meehir Atul Doshi

Whole Time Director

DIN: 08536239

MegaCo₹p



MEGA CORPORATION LTD. CIN L65100DL1985PLC092375 Regd.Office: G-155 (Basement), Kalkaji, New Delhi-110019

Ph:+91 11 40531616 email:info@megacorpltd.com, www.megacorpltd.com



(Rs in Lakhs except per share data) STANDALONE

SI.	Particulars	(Quarter Ended	Year Ended				
No.		(Unaudited)	(Unaudited) (Audited) ((Auc	lited)		
		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	31.03.2019		
(I)	Total Revenue from operations	73.52	81.16	59.52	270.41	219.75		
(II)	Other Income	0	3.18	2.62	5.11	28.08		
(III)	Total Income	73.52	84.34	62.14	275.52	247.83		
(IV)	Total Expenses	55.31	72.68	48.00	233.83	244.85		
(V)	Exceptional item	-	40.91	-	40.91	-		
(VI)	Profit before tax	18.21	(29.25)	14.14	0.78	2.98		
(VII)	Total comprehensive Income for the period	18.21	(21.44)	14.14	8.59	11.56		
(VIII)	Paid up Equity Capital (FV of Rs 1/- each)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
(IX)	Earning per equity share (quarterely figures are not annualised) (Face value of Rs. 1 each)							
	Basic (Rs.)	0.02	(0.02)	0.01	0.01	0.01		

Notes:-

Diluted (Rs.)

Date: September 14, 2020

Place: Delhi

- 1. The above unaudited financial results for the quarter ended 30th June,2020 have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on September 15, 2020. The Statutory Auditors have reviewed these financial results pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. (SEBI)(LODR).
- 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 and other recognised accounting practices and policies to the
- 3. The COVID-19 outbreak has caused significant disturbances and slowdown of economic activity. The Company has considered the possible impact of COVID-19 in preparation of these financial results. The Company has evaluated the all possible effects of likely adverse impact on the operation of the Company due to COVID-19 out break and does not expect any Uncertainty in meeting the financial obligations over the foreseeable future. The impact of this pandemic may be different as estimated as at the date of approval of these financial results and Company will monitor any material changed to future economic conditions, if pandemic situation persist in near future.
- 4. The figures for the quarter ended March 31, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year ended March 31, 2020 and unaudited year to date published figures up to the third quarter ended December 31, 2019. 5. Provision for Taxation & Deferred tax adjustment will be considered at the end of the year.

6. Previous period's figures have been regrouped I reclassified, wherever considered necessary to make them comparable For Mega Corporation Limited

Date: 15.09.2020

Surendra Chhalani (Director & CFO)

DIN:00002747

Place: New Delhi

BAG

बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1993PLC051841 **पंजीकृत कार्यालयः** 352, अग्रवाल प्लाजा, प्लाट नं. ८, कोंडली, नई दिल्ली—11009(

र**पोरेट कार्यालयः** एफसी—23, सेक्टर—16ए, फिल्म सिटी, नोएडा (उ.प्र.)—201301



वेबसाइटः www.bagnetwork24.in, ई-मेलःinfo@bagnetwork.in 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(श्लाबों में										
		एकल				समेकित				
विवरण	तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त		तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त		
14401	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020		
	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	746.89	883.95	617.27	3,331.72	1,500.25	2,915.18	4,038.46	12,054.71		
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पूर्व)	(126.30)	329.03	110.28	61.20	(992.01)	(138.80)	426.99	(1,065.46)		
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	(126.30)	329.03	110.28	61.20	(992.01)	(138.80)	426.99	(1,065.46)		
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(136.24)	327.19	107.33	49.67	(1,001.85)	(138.44)	432.57	(1,030.65)		
अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाग / (हानि)(कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात)]	(136.24)	327.19	107.33	41.89	(1,038.56)	(175.15)	432.57	1,067.36		
इक्विटी शेयर पूंजी	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66		
प्रति शेयर अर्जन (₹2/— प्रत्येक के) (चालू और बंद प्रचालनों के लिए)—										
मूल:	(0.07)	0.17	0.05	0.02	(0.52)	(0.09)	0.22	(0.54)		
तरलः	(0.07)	0.17	0.05	0.02	(0.52)	(0.09)	0.19	(0.54)		

स्थान : नोएडा

दिनांक: 14 सितंबर, 2020

अधिकत प्राधिका

- 1. उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई और इसके बाद निदेशक मंडल द्वारा 14 सितंबर, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित
- 2. उपर्युक्त सेबी (सूचीबृद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.bagnetwork24.in पर भी उपलब्ध है।
- पूर्व तिमाही / वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हुआ, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हिते बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड हस्ता./-अनुराधा प्रसाद शुक्ला

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डीआईएनः 00010716

106.4FM RADIO